



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

28 अक्टूबर 2011

संख्या 43

1. भारतीय रिज़र्व बैंक — देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	22 अक्टूबर	14 अक्टूबर	21 अक्टूबर #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	8,64,544	9,81,981	9,84,055	2,074	1,19,511
संचलन में नोट	8,64,528	9,81,963	9,84,038	2,075	1,19,511
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	17	17	16	-1	—
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	25,662	100	101	—	-25,562
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	41	42	42	—	1
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,74,736	3,67,665	3,70,429	2,765	95,693
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,751	3,708	3,795	87	43
अन्य बैंक	14,495	16,944	16,456	-488	1,961
अन्य	12,719	10,666	10,585	-81	-2,134
अन्य देयताएं	3,30,624	5,40,822	5,73,454	32,632	2,42,830
कुल देयताएं / आस्तियां	15,26,573	19,21,928	19,58,917	36,989	4,32,344
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	11,91,279	13,83,933	14,16,451	32,518	2,25,173
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	92,157	1,40,266	1,40,266	—	48,109
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	2,29,061	3,51,830	3,77,839	26,009	1,48,777
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	32,883	16,428	-16,455	16,428
राज्य सरकारें	2,049	452	433	-19	-1,615
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4,094	4,702	1,068	-3,633	-3,025
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	30	—	—	—	-30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	207	582	612	30	404
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	1,320	1,320	1,320	—	—
अन्य आस्तियां	6,376	5,960	4,500	-1,460	-1,877

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइएफएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	21 अक्टूबर 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसंबर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	15,90,751	318,358	33,185	858	2,29,737	13,540	2,58,397	21,024	2,76,463	22,959
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	14,14,549	282,514	32,480	861 *	1,89,666	8,184	2,14,472	14,700	2,24,382	14,820
(ख) स्वर्ण \$	1,40,266	28,667	—	—	37,694	5,695	39,580	6,197	48,109	8,151
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	22,743	4,542	446	-2	2,342	-27	-10	-536	-278	-636
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	13,193	2,635	259	-1	35	-312	4,355	663	4,250	624

- + आइएफएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹1,903 करोड़ / 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।
 * अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।
 ** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।
 @ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।
 \$ इसमें ₹31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	7 अक्तू. 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	70,060	1,208	-1,925	-3,682	10,692	7,053
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	28,145	3,562	-9,212	-1,580	5,964	4,999
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	9,965	46	962	2,840	665	3,024
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	56,24,932	94,665	3,00,026	4,16,963	6,30,253	8,32,080
		(1.7)	(6.7)	(8.0)	(15.1)	(17.4)
मांग	5,72,679	13,677	-43,519	-69,026	70,709	-29,411
मीयादी	50,52,253	80,988	3,43,546	4,85,989	5,59,544	8,61,491
उधार ⁽³⁾	1,67,190	-4,939	15,157	35,850	21,066	47,755
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,64,515	4,094	-5,430	22,710	4,503	40,524
रिजर्व बैंक से उधार	3,324	627	2,493	-1,707	2,535	790
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,65,021	-21,084	-3,849	15,512	90,423	61,902
पास में नकदी	39,058	3,120	1,983	8,713	3,591	11,498
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,25,962	-24,204	-5,831	6,799	86,832	50,404
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	58,113	3,433	-16,204	1,976	-1,773	11,896
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	22,677	5,172	-3,471	6,071	6,862	8,480
बैंकों को अग्रिम	8,428	-24	-4,531	-4,141	3,192	3,067
अन्य आस्तियां	73,736	493	6,488	4,663	26,004	22,785
निवेश⁽⁵⁾	17,34,778	34,579	92,341	2,33,159	1,11,660	2,57,685
		(2.0)	(6.7)	(15.5)	(8.2)	(17.4)
सरकारी प्रतिभूतियों में	17,30,778	34,760	93,331	2,33,631	1,14,176	2,59,053
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,000	-181	-990	-472	-2,515	-1,368
बैंक ऋण	41,48,598	55,443	2,28,271	2,06,515	5,84,064	6,75,538
		(1.4)	(7.0)	(5.2)	(20.2)	(19.5)
खाद्य ऋण	63,315	-4,930	1,265	-968	7,034	13,561
खाद्येतर ऋण	40,85,282	60,373	2,27,006	2,07,483	5,77,031	6,61,978
ऋण, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	39,98,234	51,914	2,23,574	2,04,228	5,59,543	6,52,502
देशी बिल - खरीदे गए	13,341	1,473	-1,542	-103	-47	2,869
भुनाए गए ⁽⁶⁾	80,239	995	6,550	373	19,371	11,471
विदेशी बिल - खरीदे गए	18,852	319	716	269	434	2,004
भुनाए गए	37,931	742	-1,027	1,748	4,763	6,692
नकद-जमा अनुपात	6.49					
निवेश-जमा अनुपात	30.84					
ऋण-जमा अनुपात	73.75					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	15 अक्टूबर	9 सितम्बर	16 सितम्बर	23 सितम्बर	30 सितम्बर	7 अक्टूबर	14 अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	7.50/8.50	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	7.00/8.00	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) ⁽⁴⁾	6.26	7.93	8.03	8.25	8.27	8.00	8.27

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बेचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2011-2012			2010-2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2)-(1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5)-(4)
	2011			2010		
	25 मार्च	7 अक्तूबर		26 मार्च	8 अक्तूबर	
	1	2	3	4	5	6
1. बैंक ऋण	39,42,083	41,48,598	2,06,515 (5.2)	32,44,788	34,73,059	2,28,271 (7.0)
क. खाद्य ऋण	64,283	63,315	-968	48,489	49,754	1,265
ख. खाद्येतर ऋण	38,77,800	40,85,282	2,07,483 (5.4)	31,96,299	34,23,305	2,27,006 (7.1)
2. निवेश	1,47,601	1,69,275	21,674	1,18,071	1,50,757	32,686
क. वाणिज्यिक पत्र	12,309	21,244	8,935	25,188	42,676	17,488
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	41,316	38,941	-2,375	30,106	33,873	3,767
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	8,965	8,377	-588	4,625	6,894	2,269
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	30,564	-1,787	25,481	26,979	1,498
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	93,975	1,09,089	15,114	62,777	74,208	11,431
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,946	35,013	7,067	22,710	22,115	-594
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	74,077	8,047	40,067	52,092	12,025
3. कुल (1ख+2)	40,25,401	42,54,557	2,29,156 (5.7)	33,14,370	35,74,061	2,59,692 (7.8)
ज्ञापन मदें :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	47,603	61,806	14,203	52,887	60,404	7,516
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	31,296	32,326	1,030	32,597	28,789	-3,809
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	45,615	45,668	53	30,902	31,618	716

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें – हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+)/ ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	17 अक्तू.	18 अक्तू.	19 अक्तू.	20 अक्तू.	21 अक्तू.	17 अक्तू.	18 अक्तू.	19 अक्तू.	20 अक्तू.	21 अक्तू.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	48.8925	49.1360	49.1775	49.7110	50.0670	—	-9.92	-9.59	-10.91	-11.40
यूरो	67.7880	67.5815	67.9645	68.0541	69.0350	—	-9.07	-9.00	-10.29	-10.26
फेडरल की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	48.8900	49.1350	49.1700	49.6650	50.0950	—	-9.92	-9.56	-10.80	-11.46
डॉलर { बिक्री	48.9000	49.1450	49.1800	49.6750	50.1050	—	-9.92	-9.56	-10.80	-11.46
पौंड { खरीद	77.2750	77.5850	77.4925	78.0525	79.1600	—	-9.27	-9.00	-10.72	-11.36
स्टर्लिंग { बिक्री	77.3050	77.6100	77.5225	78.0850	79.1950	—	-9.27	-9.00	-10.73	-11.35
यूरो { खरीद	67.7750	67.5650	67.9375	68.0450	69.0200	—	-9.06	-8.98	-10.31	-10.21
{ बिक्री	67.8000	67.5950	67.9775	68.0700	69.0500	—	-9.06	-8.99	-10.29	-10.21
100 येन { खरीद	63.3625	63.9350	64.0475	64.6850	65.2700	—	-14.73	-14.75	-15.77	-16.09
{ बिक्री	63.3825	63.9750	64.0775	64.7150	65.3000	—	-14.73	-14.74	-15.78	-16.07
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	6.14	6.11	6.10	6.40	6.71					
3 - माह	4.99	5.05	5.37	5.07	5.27					
6 - माह	3.97	3.91	4.39	4.06	4.11					

— पिछले वर्ष के तदुत्तरूपी दिन बाजार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	7 अक्तू. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम ₃	64,99,548	69,62,822	1,03,994	1.5	3,87,701	6.9	4,63,274	7.1	8,16,588	15.8	9,72,390	16.2
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,197	9,49,232	7,973	0.8	66,365	8.6	35,035	3.8	1,32,552	18.9	1,15,374	13.8
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,660	6,51,919	13,997	2.2	-42,102	-5.9	-65,740	-9.2	84,636	14.3	-23,948	-3.5
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	48,63,979	53,59,304	81,998	1.6	3,62,632	8.8	4,95,325	10.2	5,99,187	15.5	8,83,242	19.7
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,713	2,367	25	1.1	806	21.0	-1,346	-36.2	212	4.8	-2,278	-49.0
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,82,771	21,57,973	20,141	0.9	86,937	5.2	1,75,202	8.8	3,22,166	22.5	4,01,850	22.9
(क) रिजर्व बैंक	3,96,555	3,42,125	-14,535		-16,884		-54,430		1,89,336		1,47,423	
(ख) अन्य बैंक	15,86,216	18,15,848	34,675	1.9	1,03,821	7.1	2,29,631	14.5	1,32,829	9.3	2,54,426	16.3
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क +ख)	42,35,406	44,45,753	56,092	1.3	2,53,410	7.3	2,10,347	5.0	6,18,230	19.8	7,00,934	18.7
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,323	-460	-	-3	-	-842	-	-6,657	-	-3	-
(ख) अन्य बैंक	42,33,242	44,44,430	56,552	1.3	2,53,412	7.3	2,11,188	5.0	6,24,887	20.0	7,00,937	18.7
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,93,327	15,42,066	-7,074	-0.5	65,020	5.1	1,48,739	10.7	15,126	1.1	1,95,577	14.5
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,724	13,312	352	2.7	731	6.5	587	4.6	1,390	13.1	1,311	10.9
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं जिनमें से :	11,24,680	11,96,281	-34,483	-2.8	18,397	2.2	71,601	6.4	1,40,324	19.3	3,27,283	37.7
रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	3,68,274	5,18,818	-7,832	-1.5	27,661	9.2	1,50,544	40.9	-41,507	-11.2	1,89,542	57.6

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	21 अक्तू. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,76,881	13,89,190	4,357	0.3	17,973	1.6	12,309	0.9	2,03,080	20.9	2,15,531	18.4
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,659	9,97,350	2,075	0.2	77,131	9.6	47,691	5.0	1,32,987	17.9	1,20,670	13.8
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	3,90,680	2,363	0.6	-59,316	-16.8	-32,829	-7.8	70,102	31.5	97,698	33.3
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,713	1,160	-81	-6.5	158	4.1	-2,552	-68.7	-9	-0.2	-2,837	-71.0
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,96,555	3,94,737	9,490		-5,935		-1,818		1,61,928		1,89,086	
	3,94,035	3,94,346	9,509		-7,938		311		1,60,391		1,90,703	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को	7,324	2,980	-3,604		3,134		-4,344		-880		-2,651	
(नाबार्ड सहित)	5,159	1,102	-3,604		2,985		-4,057		4,134		-3,052	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	15,56,700	32,518	2.1	51,470	4.2	2,28,147	17.2	-13,756	-1.1	2,73,282	21.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,724	13,312	—	—	883	7.8	587	4.6	1,421	13.2	1,159	9.5
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	3,68,274	5,78,538	34,047	6.3	31,578	10.5	2,10,263	57.1	-54,367	-14.0	2,45,345	73.6

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(कोड़ ₹)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) / कमी(-) (5-10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17 अक्तूबर 2011	1	20	53.655	20	53.655	8.25	1	20	1	20	7.25	53.635	—	−53.635
18 अक्तूबर 2011	1	15	41.780	15	41.780	8.25	1	15	1	15	7.25	41.765	—	−41.765
19 अक्तूबर 2011	1	20	56.360	20	56.360	8.25	—	—	—	—	7.25	56.360	—	−56.360
20 अक्तूबर 2011	1	25	76.385	25	76.385	8.25	1	500	1	500	7.25	75.885	—	−75.885
21 अक्तूबर 2011	3	36	80.540	36	80.540	8.25	7	770	7	770	7.25	79.770	—	−79.770

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई ।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(कोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 5 जन.	7 जन.	4,000	85	10,008	500	40	4,000	500	—	4,500	98.27	7.1027	62,859
2011-2012 6 अप्रैल	8 अप्रैल	4,000	78	14,105	—	35	4,000	—	—	4,000	98.26	7.1443	69,845
6 जुलाई	8 जुलाई	7,000	94	27,621	250	29	7,000	250	—	7,250	98.00	8.1857	1,21,860
19 अक्तू.	21 अक्तू.	4,000	81	11,530	1,301	40	4,000	1,301	—	5,301	97.90	8.6456	1,09,720
182-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 5 जन.	7 जन.	1,500	50	5,332	—	14	1,500	—	—	1,500	96.53	7.2954	20,500
2011-2012 13 अप्रैल	15 अप्रैल	2,000	74	7,744	1,500	25	2,000	1,500	—	3,500	96.43	7.4462	24,501
6 जुलाई	8 जुलाई	3,000	75	7,178	—	44	3,000	—	—	3,000	96.04	8.2692	34,251
12 अक्तू.	14 अक्तू.	4,000	56	7,293	—	41	4,000	—	—	4,000	95.90	8.6177	42,100
364-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 12 जन.	14 जन.	1,000	48	3,969	—	8	1,000	—	—	1,000	93.08	7.5012	42,610
2011-2012 6 अप्रैल	8 अप्रैल	2,000	80	8,350	—	31	2,000	—	—	2,000	93.02	7.5476	42,456
13 जुलाई	15 जुलाई	3,000	107	13,141	—	20	3,000	—	—	3,000	92.41	8.2360	53,308
19 अक्तू.	21 अक्तू.	4,000	85	10,695	5	31	4,000	5	—	4,005	92.05	8.6840	67,166

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है ।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है ।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(कोड़ ₹)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8 अक्टू.	9 अक्टू.	10 अक्टू.	11 अक्टू.	12 अक्टू.	13 अक्टू.	14 अक्टू.	15 अक्टू.	16 अक्टू.	17 अक्टू.	18 अक्टू.	19 अक्टू.	20 अक्टू.	21 अक्टू.
21 अक्टूबर 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधी अपेक्षाएँ	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755	3,53,755
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,20,193	3,20,193	3,71,614	3,72,279	3,67,215	3,63,302	3,67,794	3,69,405	3,69,405	3,58,288	3,35,125	3,43,315	3,61,871	3,70,573

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं ।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(कोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @	
	1		2		3	
8 अक्टूबर 2010		3,44,158		38,285		6.36-8.26
14 जनवरी 2011		3,71,881		44,019		7.18-9.82
8 अप्रैल 2011		4,44,525		61,292		8.00-11.70
15 जुलाई 2011		4,05,973		28,431		8.20-10.10
26 अगस्त 2011		4,05,685		24,798		8.79-9.82
9 सितम्बर 2011		3,86,470		41,608		8.70-10.25

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष ।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50-10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60-11.95
15 अप्रैल 2011	1,05,518	30,840	7.15-12.30
15 जुलाई 2011	1,28,347	29,818	8.10-13.25
31 अगस्त 2011	1,48,812	21,797	7.67-14.50
15 सितम्बर 2011	1,59,701	31,045	8.47-14.00

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		9 अक्टूबर	13 अगस्त *	8 अक्टूबर #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	183.3	199.0	203.8	0.2	0.9	8.2	11.2
(i) फल और सब्जियां	3.84	178.7	188.1	205.6	0.9	6.9	23.2	15.1
ईंधन और विद्युत	14.91	147.7	167.3	170.1	0.1	1.1	7.7	15.2
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* : अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

प्रोट : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	21 अक्टूबर	17 अक्टूबर	18 अक्टूबर	19 अक्टूबर	20 अक्टूबर	21 अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	20260.58	17025.09	16748.29	17085.34	16936.89	16785.64
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	6101.50	5118.25	5037.50	5139.15	5091.90	5049.95

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	9 सितम्बर 2011	16 सितम्बर 2011	23 सितम्बर 2011	30 सितम्बर 2011	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	9,646	12,370	11,605	10,070	9,823	12,907	8,972
ख) दिए गए ऋण	10,678	13,188	12,723	10,522	10,681	13,645	9,467
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	1,032	818	1,118	452	858	738	495
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	—	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	10,678	13,188	12,723	10,522	10,681	13,645	9,467
ख) दिए गए ऋण	10,678	13,188	12,723	10,522	10,681	13,645	9,467

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	16 सितम्बर 2011	23 सितम्बर 2011	30 सितम्बर 2011	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,27,569	1,10,268	88,685	83,341	1,03,415	1,10,688
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,955	1,670	540	2,247	1,716	2,143
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	7,920	11,650	10,331	9,259	6,413	5,256
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	2,270	420	1,370	2,090	1,991	1,184
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,311	2,468	1,264	2,960	2,402	3,106
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	—	233	3	379	89	422

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भार.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई			एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
3 अक्टूबर 2011	4.109	1.564	1.078	204	474	512	10,382	6.595	718	3,637	1.864	91
4 अक्टूबर 2011	2.914	1.187	830	168	279	297	6,889	6.757	1,102	3,581	1.805	117
5 अक्टूबर 2011	2.089	1.123	618	334	370	301	5,442	5.626	1,576	3,418	1.661	128
6 अक्टूबर 2011 +												
7 अक्टूबर 2011	3.566	1.683	692	344	336	308	7,175	6.066	620	3,361	1.807	183
बिक्री												
3 अक्टूबर 2011	3.966	1.852	927	193	470	636	10,107	7.660	1,153	3,602	1.989	97
4 अक्टूबर 2011	3.068	1.653	691	153	312	290	6,531	7.925	1,360	3,636	1.992	128
5 अक्टूबर 2011	2.636	1.294	504	335	304	346	5,320	6.377	1,386	3,418	1.778	127
6 अक्टूबर 2011 +												
7 अक्टूबर 2011	3.486	1.757	576	349	353	251	7,099	6.408	584	3,455	2.123	121

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

+ बाजार बंद।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	16 सितम्बर 2011	23 सितम्बर 2011	30 सितम्बर 2011 @	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011
	1	2	3	4	5	6
राशि	564.17	767.17	363.36	467.49	452.54	1,326.51

@ : 30 सितम्बर 2011 को बाजार बंद रहने के कारण आंकड़े 29 सितम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह के हैं।

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	21 अक्टूबर 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (1+2+3+4)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
	1	2	3	4			
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	37,020	13,863	17,197	68,080	-4,697	24,661
राज्य सरकारें	66,004	27,719	2,150	419	96,291	6,449	-15,197
अन्य	4,075	44,981	26,087	49,550	1,24,693	3,906	41,295

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार — 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (21 अक्टूबर 2011 तक)	2010-2011 (22 अक्टूबर 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (21 अक्टूबर 2011 तक)	2010-2011 (22 अक्टूबर 2010 तक)	2010-2011
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	2,78,000	3,17,000	4,37,000	2,15,419	2,33,966	3,25,414
2. भारिबैंके खुला बाजार परिचालन* : बिक्री	4,591	5,317	11,575			
खरीद	4,566	5,306	78,799			

* भारि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	14 अक्टूबर 2011 को समाप्त सप्ताह			21 अक्टूबर 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	—	—	—	—	—	—
2012-13	372	8.4142	8.5942	1,133	8.4428	8.6174
2013-14	—	—	—	—	—	—
2014-15	235	8.3499	8.5018	86	8.5415	8.6432
2015-16	95	8.4460	8.5390	16	8.5751	8.5804
2016-17	1,594	8.5738	8.7164	990	8.7131	8.7676
2017-18	280	8.6246	8.7396	36	8.7457	8.7457
2018-19	3,375	8.5658	8.7738	5,175	8.7263	8.8494
2019-20	—	—	—	—	—	—
2020-21	480	8.9883	9.2042	11	9.2897	9.2914
2021 से आगे	45,276	8.5643	8.9917	47,895	8.7217	9.0869
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	858	8.8307	8.9761	1,071	8.8668	9.0900
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	1,267	8.2000	8.4008	596	8.1500	8.4287
ख) 15 - 91 दिन	2,241	8.1763	8.4782	2,927	8.2500	8.7504
ग) 92 - 182 दिन	900	8.4501	8.5800	173	8.4998	8.6001
घ) 183 - 364 दिन	995	8.4775	8.6300	1,077	8.5233	8.6840
II. भा.रि.बैं. * : बिक्री	43			230		
खरीद	46			192 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	44,427	6.75 (1)	10.00 (31)	50,861	6.85 (1)	9.35 (90)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	304	8.23 (1)	9.00 (14)	96	8.15 (1)	8.25 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	10,933	7.95 (1)	8.30 (3)	24,055	6.75 (1)	8.65 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	5,501	8.10 (1)	8.30 (3)	5,233	8.10 (1)	8.30 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	11,751	8.10 (1)	8.30 (3)	11,809	8.10 (1)	8.50 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	3,09,280	—	8.25	3,08,720	—	8.25
: रिवर्स रिपो !	1,855	—	7.25	1,305	—	7.25

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

✱ कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बाँड (तेल बाँड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹800 और ₹2,000 तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ राय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ राय।